



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2005/फाल्गुन 9, 1926

No. 85]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2005/PHALGUNA 9, 1926

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

( माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 108(अ).—वास्तु कला अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 16 द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, वास्तुकला परिषद् से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा निदेश देती है कि 'प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59)' की धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1965 का 3)' की धारा 3 के अन्तर्गत 'विश्वविद्यालय' घोषित की गई प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदान की गई 'वास्तुकला स्नातक' (बी. आर्क) डिग्री 'वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20)' के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त अर्हता है, और उपर्युक्त प्रयोजनार्थ 'वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20)' संबंधी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

वास्तुकला अधिनियम, 1972 संबंधी अनुसूची में :

- (i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः :—  
"3. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान की गई वास्तुकला स्नातक (बी.आर्क) डिग्री,"
- (ii) क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामतः :—  
"18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अन्तर्गत 'विश्वविद्यालय' घोषित की गई प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई वास्तुकला स्नातक डिग्री।"

[ फा. सं. 17-4/2002-टी.एस.-IV/टी.एस. VI ]

रवि माथुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—वास्तुकला अधिनियम, 1972 संबंधी अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए थे :—

1. सा.का.नि. संख्या 780, दिनांक 4-7-1973 के साथ भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचित
2. सा.का.नि. संख्या 790, दिनांक 18-9-1982, पृष्ठ संख्या 2216-17 के साथ भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचित
3. सा.का.नि. संख्या 866, दिनांक 16-10-1982, पृष्ठ संख्या 2423 के साथ भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचित
4. मंत्रालय के संख्या 16-12/87-टी-12/टीडी-3, दिनांक 29-11-1990 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित
5. मंत्रालय के संख्या 16-12/87-टी-3/टीडी-III, दिनांक 7-10-1993 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित
6. सा.का.नि. 482, दिनांक 12-9-1994 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित
7. सा.का.नि. 361, दिनांक 29-7-1995 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित
8. मंत्रालय के एफ. संख्या 26-1/95-टीएस. III, दिनांक 25-1-1996 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Secondary and Higher Education)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

**G.S.R. 108(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government, after consultation with the Council of Architecture, hereby directs that Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.) awarded by an Indian Institute of Technology incorporated under Section 3 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) and by every institution for higher education declared to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) shall be a recognized qualification for the purposes of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), and for the said purpose makes the following amendments in the Schedule to the Architects Act, 1972 (20 of 1972), namely :—

In the Schedule to the Architects Act, 1972,—

- (i) for serial number 3 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“3. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.) awarded by the Indian Institute of Technology incorporated under Section 3 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961).”

- (ii) after serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

“18. Bachelor Degree of Architecture awarded by every institution for higher education declared to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).”

[F. No. 17-4/2002-TS-IV/TS. VI]

RAVI MATHUR, Jt. Secy.

**Note :—**The Schedule to the Architects Act, 1972, was amended *vide* notification numbers :

1. Notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) with G.S.R. No. 780 dated 4-7-1973.
2. Notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) with G.S.R. No. 790 dated 18-9-1982, Page No. 2216-17.
3. Notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) with G.S.R. No. 866 dated 16-10-1982, Page No. 2423.
4. Notified in the Gazette of India *vide* Ministry's No. 16-12/87-T-12/TD-3 dated 29-11-1990.
5. Notified in the Gazette of India *vide* Ministry's No. 16-12/87-T.3/TD. III dated 7-10-1993.
6. Notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 482 dated 12-9-1994.
7. Notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 361 dated 29-7-1995.
8. Notified in the Gazette of India *vide* Ministry's F. No. 26-1/95-TS. III dated 25-1-1996.